



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25—दिसम्बर 1, 2006 (अग्रहायण 4, 1928)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25—DECEMBER 1, 2006 (AGRAHAYANA 4, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 2 नवम्बर 2006

सं. ए-22017/1/2006-पी.एम.ए.--राष्ट्रपति जी, गृह मंत्रालय (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा) के वैयक्तिक सहायक और वर्तमान में प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ में वैयक्तिक सहायक के पद पर तैनात श्री अम्बा दत्त को 1 नवम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ में निजी सचिव (6,500-200-10,500/- रुपए) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ में श्री अम्बा दत्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

पी. के. राय, अवर सचिव

दिनांक 3 नवम्बर 2006

सं. ए-22017/1/2006-पी.एम.ए.--वाणिज्य विभाग में अवर सचिव के ग्रेड में पदोन्नति पर नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप, गृह मंत्रालय (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) के अनुभाग अधिकारी और वर्तमान में प्रधानमंत्री

के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री आर.एस. चटर्जी ने 3 नवम्बर, 2006 के अपराह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

पी. के. राय, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2006

सं. एफ.6(1991)/2006-प्रशासन-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 के आदेश सं. 7/9/2006-ई.ओ.(एस. एम.-1) के तहत सूचित ए.सी.सी. के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए श्री अभिजीत सेनगुप्ता, आई.ए.एस. (कनॉटक : 72) ने दिनांक 01.11.2006 के पूर्वाह्न से भारत सरकार के सचिव के वेतनमान में योजना आयोग में प्रधान सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

आर. श्रीधरन, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 2006

सं. एफ.6(1934)/2005-प्रशासन-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 के आदेश सं. 9/32/2006-ई.ओ. (एस.

एम.-1) के तहत सूचित ए.सी.सी. के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए तथा दिनांक 4 अगस्त, 2006 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में डॉ. चन्द्रपाल, आई.ए.एस. (उ.प्र. : 72), भारत सरकार के सचिव के स्तर व वेतनमान में योजना आयोग में प्रधान सलाहकार के पद पर 31 अक्टूबर, 2006 से अगले 3 महीनों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बने रहेंगे।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

सं. एफ.6(1992)/2006-प्रशासन-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 नवम्बर, 2006 के आदेश सं. 7/10/2006-ई.ओ. (एस. एम.-1) के तहत सूचित ए.सी.सी. के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए श्रीमती सुधा पिल्लै, आई.ए.एस. (केरल : 72) ने दिनांक 02.11.2006 के पूर्वाह्न से भारत सरकार के सचिव के स्तर एवं वेतनमान में योजना आयोग में प्रधान सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. एफ.6(1691)/96-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 13.10.2006 के आदेश सं. 13016/3/2006-आई.ई.एस. का अनुपालन करते हुए आई.ई.एस. के एन.एफ.एस.जी. अधिकारी तथा योजना आयोग में निदेशक, श्रीमती सुश्रिता दासगुप्ता को आर्थिक कार्य विभाग में कार्यभार संभालने हेतु दिनांक 7.11.2006 (अपराह्न) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 9 नवम्बर 2006

सं. एफ.6(1892)/2004-प्रशासन-1--आई.एस.एस. के एस.ए.जी. में उनकी प्रोन्नति तथा एन.एस.एस.ओ., एफ.ओ.डी., लखनऊ में उप महानिदेशक के पद पर उनकी तैनाती के परिणाम स्वरूप, योजना आयोग में निदेशक श्री राजीव लोचन को एन.एस.एस.ओ., एफ.ओ.डी., लखनऊ में कार्यभार संभालने हेतु दिनांक 9.11.2006 (अपराह्न) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 10 नवम्बर 2006

सं. एफ.6(1994)/2006-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 13.10.2006 के आदेश सं. 13016/3/2006-आई.ई.एस. का अनुपालन करते हुए आई.ई.एस. के एन.एफ.एस.जी. अधिकारी श्रीमती सुमन कौशिक ने दिनांक 7.11.2006 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में 14,300-400-18,300 रु. के वेतनमान में निदेशक का पदभार संभाल लिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 13 नवम्बर 2006

सं. एफ.6(1939)/2005-प्रशासन-1--आई.एस.एस. के एस.ए.जी. में उनकी प्रोन्नति तथा प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली में उप महानिदेशक के पद पर उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप, योजना आयोग में निदेशक श्री रवि कान्त भटनागर को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली में पदभार संभालने हेतु, दिनांक 13.11.2006 (अपराह्न) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 9 नवम्बर 2006

सं. 193/22/11/2006(आईडीजी)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, सुश्री इला दत्ता गुप्ता, अवर सचिव दिनांक 31.10.2006 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गयीं।

स्टेडोप युहलुंग, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

सं. ए. 12026/4/2006-प्रशा. I (वि.वि.)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29/3/2006-ई.ओ. (एम.एम.-1) की संस्तुति पर और वर्ष 1999 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा निदेशक पात्रता सूची में नाम शामिल किए जाने के अनुमोदन स्वरूप, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा सलेक्शन ग्रेड अधिकारी, श्री एम. दास, उप सचिव को रु. 14,300-400-18,300 के वेतनमान में निदेशक के पद पर, जो पद उनके द्वारा धारित उप सचिव के पद का वैयक्तिक आधार पर निदेशक के पद में उन्नयन होने पर बना है, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 से और अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय जी. मंगल, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 26 सितम्बर 2006

सं. के.11019/1/2006-यू.एस. II(पार्ट)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री एस.एस. निज़र को न्यायविद् श्री हरजीत सिंह बेदी की बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनके द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के.13026/1/2006-यू.एस.11--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री शैलेश कुमार सिन्हा, (ii) श्री जयानन्दन सिंह, (iii) श्रीमती शीमा अली खां तथा (iv) श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह को उसी वरीयता क्रम में, अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अजय कुमार त्रिपाठी को अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पटना उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के.13014/4/2006-यू.एस.11--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री हरजीत सिंह बेदी को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से बम्बई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. 14016/28/2005-यू.टी.एस.11--अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली की पुलिस सेवा के प्रविष्टि ग्रेड में दो वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	रैंज संख्या	जन्म तिथि
	(सर्व/श्री)		
1.	गुरनाम सिंह सेठी	डी-I/573	26.04.1948
2.	नरेश चन्द अनेजा	डी-I/519	02.04.1949
3.	जिन्दर सिंह	डी-I/562	06.07.1947
4.	मोहन चंद्र	डी-I/520	12.10.1949
5.	रविन्द्र सिंह ग्रेवाल	डी-I/521	20.10.1949

रजनीश तिगल, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

सं. 14016/28/2005-यू.टी.एस.11--दिल्ली पुलिस के 12 निरीक्षकों की दानिप्स की प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक

30 अक्टूबर, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना में पैरा 1 की सारणी के क्रम संख्या 2 पर श्री सुशील कुमार (डी-I/609) का नाम भूलवश शामिल हो गया था और उसे अब हटया हुआ समझा जाए।

रजनीश तिगल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. 20/जी/2817-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्रीमती पी.वी. वलसला जी. कुट्टी को राजभाषा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 01 नवम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2006

सं. आई-14011/10/2006-आई.पी.एस.-I(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

चयन सूची 2006

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	सी.एस.आर.के.एल.एन. राजू	01.04.1956
2.	एम. नागन्ना	01.07.1956
3.	जी. सुधीर बाबू	15.04.1966
4.	टी. प्रभाकर राव	25.06.1960
5.	सी. रवि वर्मा	01.11.1958
6.	पी. प्रमोद कुमार	13.05.1961

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/10/2006-आई.पी.एस.-I(1)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 02.11.2006 को चयन समिति की दिनांक 12.09.2006 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2006 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के आंध्र प्रदेश संवर्ग में वर्ष 2006 में छह मौलिक शक्तियों को भरे जाने हेतु आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	सी.एस.आर.के.एल.एन. राजू (अ.पि.जा.)	01.04.1956
2.	एम. नागन्ना (अ.पि.जा.)	01.07.1956
3.	जी. सुधीर बाबू (अ.जा.)	15.04.1966
4.	टी. प्रभाकर राव	25.06.1960
5.	सी. रवि वर्मा (अ.पि.जा.)	01.11.1958
6.	पी. प्रमोद कुमार (अ.पि.जा.)	13.05.1961

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

सं. ए-19011/3/2006-अ.रा.प.(प्र.)--राष्ट्रपति, श्री एम रामलिंगम, को 6 अक्टूबर 2006 के पूर्वाह्न से अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड (उप-सचिव) के पद पर तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. बी. राजप्पन, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

सं. 32013/1/2006-प्रशासन-I(जी)--राष्ट्रपति, सुश्री सिम्मी आर. नाकरा, आई.पी. एण्ड टी., ए. एण्ड एफ.एस. (94) को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 29 सितम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से चार वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो उप सचिव नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. 32013/5/2006-प्रशासन-I(जी)पार्ट--राष्ट्रपति, श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश : 76) को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 7 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 18,400-500-22,400 रुपए के वेतनमान में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2005

सं. 41/पी ए-II/2005--संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2004 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति निम्नलिखित 20 (बीस) उम्मीदवारों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीखों से विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में भारतीय विदेश सेवा (भा वि से) परीक्षार्थी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	उम्मीदवार का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	सुश्री सुजा के	22.08.2005 (पूर्वा.)
2.	सुश्री रचिता भंडारी	22.08.2005 (पूर्वा.)
3.	अमीत स. तैलग	22.08.2005 (पूर्वा.)
4.	गौरव अहलुवालिया	22.08.2005 (पूर्वा.)
5.	सुमित सेठ	22.08.2005 (पूर्वा.)
6.	एस. सतीश कुमार	22.08.2005 (पूर्वा.)
7.	निनाद एस. देशपांडेय	22.08.2005 (पूर्वा.)
8.	सुश्री गितिका श्रीवास्तव	22.08.2005 (पूर्वा.)
9.	आशीष कुमार सिन्हा	22.08.2005 (पूर्वा.)
10.	सुश्री इनम	22.08.2005 (पूर्वा.)
11.	अभिषेक शर्मा	24.08.2005 (पूर्वा.)
12.	वैकटचलम एम.	22.08.2005 (पूर्वा.)
13.	आनंद प्रकाश एम.	22.08.2005 (पूर्वा.)
14.	ब्रम्हा कुमार	22.08.2005 (पूर्वा.)
15.	एल. रामेश बाबू	05.12.2005 (पूर्वा.)
16.	सुश्री दीप्ति गंजी	22.08.2005 (पूर्वा.)
17.	पी.एस. गंगाधर	22.08.2005 (पूर्वा.)
18.	एस. गोपालकृष्णन	22.08.2005 (पूर्वा.)
19.	सुश्री मुअनपई लाल मिंगलियाना	22.08.2005 (पूर्वा.)
20.	सुश्री टी. अंजुगला जमीर	22.08.2005 (पूर्वा.)

2. अपनी नियुक्ति के पश्चात् उपर्युक्त 20 अधिकारियों ने अपने नाम के आगे उल्लिखित तारीख से भारतीय विदेश सेवा परीक्षार्थी (2005) का पदभार ग्रहण कर लिया।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी एवं काडर)

दिनांक 24 अप्रैल 2006

सं. 10/पी ए-II/2006--2005 बैच की सुश्री गितिका श्रीवास्तव भारतीय विदेश सेवा (परीक्षार्थी) के नाम में परिवर्तन हो जाने के कारण उन्हें सुश्री गीतिका श्रीवास्तव के नाम से जाना जाएगा।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी एवं काडर)

सं. 11/पी ए-II/2006--2005 बैच की सुश्री सुजा के. भारतीय विदेश सेवा (परीक्षार्थी) के नाम में परिवर्तन हो जाने के कारण उन्हें सुश्री सुजा के. मेनन के नाम से जाना जाएगा।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी एवं काडर)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2006

सं. 5/पी ए-II/2006--2005 बैच की सुश्री हिनगिलयाना मुआनपुरई लाल, भारतीय विदेश सेवा (परिवीक्षाधीन) के नाम में परिवर्तन हो जाने के कारण उन्हें सुश्री मुआनपुरई सैयावी के नाम से जाना जाएगा।

आर. के. शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (पी ए-II)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. 3/2006 (फा. सं. 26/5/2006-प्रशासन-1ग)--राष्ट्रपति, श्री एम. वीरायन, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण में दिनांक 11.09.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, सदस्य (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2006

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 24 (फा. सं. सी-38012/19/2006-प्रशा. II)--राष्ट्रपति जी, मिथिलेश कुमार, संयुक्त आयुक्त, वापी सरकारी सेवा से दिए गए सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48-ए अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को दिनांक 27.06.2006 (पूर्वाह्न) से मंजूर करते हैं।

हवा सिंह, अवर सचिव

दिनांक 22 जून 2006

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 27 (फा. सं. सी-38012/22/2006-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, मूल नियमावली के नियम 56 के (1-ए) (ए) के अंतर्गत श्री अभिताभ हजेला उप ए डी जी, सी.ई.आई. चेन्नई द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) वर्ग "क" से दिए गए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस को दिनांक 22.6.2006 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं।

हवा सिंह, अवर सचिव

दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. 2006 की अधिसूचना सं. 38 (फा. सं. सी-39012/12/2006-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26 के तहत श्री संजय अग्रवाल, सहायक आयुक्त, जनसंपर्क और प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा दिए गए त्यागपत्र को दिनांक 31.8.2006 (दोपहर बाद से) स्वीकार करते हैं।

हवा सिंह, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2006

सं. ए.12011/17/2006-प्रशा.2--राष्ट्रपति, खान मंत्रालय में सीएसएसएस संवर्ग की प्रधान निजी सचिव श्रीमती जयंती श्रीनिवासन को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर 23.10.2006 (अपराह्न) से 31.12.2006 तक की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त कर्मचारियों की तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें नियमित नियुक्ति या सीएसएसएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्रता हेतु नहीं की जाएगी और चयन सूची के उम्मीदवार उपलब्ध होने पर उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 नवम्बर 2006

सं. ए.12011/16/2006-प्रशा.2--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.9.2006 के आदेश सं.-4/2/2006-सीएस-1 और 31.10.2006 के समसंख्यक आदेश के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सीएसएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के श्री बी.एस. रावत को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 01 नवम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में सीएसएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. श्री बी.एस. रावत की तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें सीएसएसएस की चयन सूची (उप सचिव) में अनिश्चित काल के लिए बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने या चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति कभी भी बिना उसका कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2006

सं. ए-19011/227/2002-स्थापना--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के, वर्तमान में विशेष सचिव (वित्तीय क्षेत्र), श्री विनोद राय, आईएएस (केएल : 72), को 27 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से 26,000 रुपए (नियत) के वेतन में सचिव (वित्तीय क्षेत्र) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर 2006

सं. ए-12026/3/2005-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अवर सचिव, श्रीमती शोभा जॉर्ज को 31 अगस्त, 2006 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थामस, अवर सचिव

सं. ए-12026/3/2005-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, पंजाब एंड सिंध बैंक में मुख्य प्रबंधक श्री सुरेन्द्र सिंह कोचर को 7 अगस्त, 2006 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर ऋण वसूली अधिकरण-1, चंडीगढ़ में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थामस, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2006

सं. पीएफजी (2224)-प्रशा. 1/2006--राष्ट्रपति, सुश्री प्रिया पी. नायर, आईईएस को दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से फिलहाल अस्थायी तौर पर अथवा अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में लोन आधार पर सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 6 नवम्बर 2006

सं. ए-32014/1/2006-प्रशा.1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'ए' व 'बी' (मर्ज्ड) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) श्री अरुण कुमार शर्मा, निजी सचिव को दिनांक 4 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से अंतर्सर्वगीय स्थानांतरण पर 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में रूप में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. पीएफजी(2165)/प्रशा.1--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक (वित्त आयोग प्रभाग) श्री आर.पी. यादव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप 31 अक्टूबर, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

2. उसी तारीख से विभाग के रोलस से उनका नाम काट दिया जाएगा।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 9 नवम्बर 2006

सं. पीएफजी(2226)-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री डी.डी. तिवारी, उप निदेशक (रा.भा.) को स्थानांतरण आधार पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में दिनांक 1 नवम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2006

सं. ए-11019/1/2006-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के श्री रतन कुमार सरकार-II को लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक, सेन्ट्रल, कोलकाता के कार्यालय में दिनांक 7.8.2006 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में कल्याण अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

सं. ए-11019/1/2006-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के श्री रमेश प्रसाद कंठ को प्रधान पहालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना के कार्यालय में दिनांक 9.8.2006 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में कल्याण अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 2006

सं. 1/3/2002-प्रशा.--इस प्राधिकरण की दिनांक 30 नवम्बर 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में विद्युत मंत्रालय में स्थायी निजी सचिव श्री बी. एम. वल्लभन की 10,000-325-15,200 रुपए प्रतिमाह के वेतनमान में की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्व निबन्धनों और शर्तों सहित दिनांक 22.11.2006 से दिनांक 21.11.2007 तक या अगले आदेश या इस प्राधिकरण की समाप्ति तक, जो भी पूर्व घटित हो, बढ़ा दी गई है।

हनवन्त किशोर, अवर सचिव

कंपनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

सं. ए-12023/12/2005-प्रशा. I/IV--राष्ट्रपति, श्री न्यायमूर्ति ओम प्रकाश द्विवेदी, दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को दिनांक 26.09.2006 (अपराह्न) से उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अर्थात्, दिनांक 01.04.2009 तक या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के गठन एवं संचालन में आने से एमआरटीपी के बंद होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग (एमआरटीपी) के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. विग, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

सं. 19/2006 (फा. सं. 6/2354/2005/एच आर डी-1/5154--
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय के श्री विजेन्द्र
कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक 31.10.2006 (अपराह) से सरकारी सेवा
से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मुकेश भटनागर, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

सं. 19/2006 (फा. सं. ए-19011/7/96-स्था.)--श्री चन्द्र भान,
निदेशक, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, 31 अक्टूबर, 2006 के अपराह
से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो
गए हैं।

जे. पी. दत्त, अवर सचिव

दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. 20/2006 (ए-12022/6/2006-स्था.)--राष्ट्रपति, श्री आर. एस.
कनाडे, भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर
के अधिकारी को 26 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह से वस्त्र मंत्रालय में
18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में आर्थिक सलाहकार के
रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. पी. दत्त, अवर सचिव

सं. 21/2006 (ए-22014/6/2006-स्था.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय
सचिवालय सेवा की श्रीमती अनीता पुरी को वस्त्र मंत्रालय में 1 नवम्बर,
2006 (पूर्वाह) से वस्त्र मंत्रालय में अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में
नियुक्त करते हैं।

जे. पी. दत्त, अवर सचिव

सं. 22/2006 (ए-22014/6/2006-स्था.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय
सचिवालय सेवा के श्री आर.एस. दुदानी को वस्त्र मंत्रालय में 1 नवम्बर,
2006 (पूर्वाह) से वस्त्र मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते
हैं।

जे. पी. दत्त, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2006

सं. ए-19011/11/06-स्था.--राष्ट्रपति, सुश्री आशा रानी रंगट, आईपी
एंड टीए एंड एफएस (94) को रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग में

1 नवम्बर, 2006 के पूर्वाह से 4 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों
तक, इनमें से जो भी पहले हो, उप सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. पी. वशिष्ठ, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2006

सं. ए-32014/1/2005-प्रशासन--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के
दिनांक 31 जुलाई, 2006, 26 सितम्बर, 2006 और 5 अक्टूबर, 2006
के का.जा. सं. 07/03/2006-सीएस-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, कोयला
मंत्रालय के सी.एस.एस. संवर्ग की चयन सूची, 1991 के निम्नलिखित
स्थायी सहायकों को 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में कोयला
मंत्रालय में सी.एस.एस. संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में
7.11.2006 के पूर्वाह से 31.12.2006 तक अथवा नियमित अनुभाग
अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते
हैं :-

नाम	जन्मतिथि	एससीएसएल सं.
श्री जी. एस. यादव	03.04.1950	343
श्री एल. एस. जनोटी	01.06.1955	405
श्री डी. एस. रावत	22.07.1953	406

2. उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर की जा रही हैं और
उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित रूप से बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के
लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सीएसएस के अनुभाग
अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
उपर्युक्त तदर्थ नियुक्तियों को कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त
करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2006

सं. 1/7/2005-एम.II--राष्ट्रपति, श्री पी. एम. तेजाले, वरिष्ठ उप
महानिदेशक (वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता सेवा), भारतीय भू-वैज्ञानिक
सर्वेक्षण को 7 नवम्बर, 2006 के अपराह से तथा आगामी आदेश होने
तक जो कि, केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, कोलकाता में मौजूदा पदोन्नति
के विरुद्ध दायर अर्जी के मामले में अंतिम निर्णय आने तक
26,000/- रु. (निश्चित) के वेतनमान में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण
में महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

भूपाल नन्दा, उप सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110 049, दिनांक 9 नवम्बर 2006

सं. ए-42013/3/2005-प्रशा.--सूचना अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 5 (1) और (2) के संदर्भ में, इस मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी
एतद्वारा अवर सचिव (सामान्य प्रशा.), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन और शुल्क प्राप्त करने के लिए नामित अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। उनका दूरभाष/फैक्स संबंधी ब्यौरा निम्नलिखित है :--

अधिकारी का नाम	पदनाम एवं पता	दूरभाष/फैक्स
श्री एस.एल. बड़ोदिया	अवर सचिव (सामान्य प्रशा.) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049	011-26496505/ 26493228

2. किंतु कोई आवेदन यदि विधिवत अधिसूचित किसी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को सीधे प्राप्त होता है तो वह उक्त की एक प्रति रिकार्ड के लिए श्री एस.एल. बड़ोदिया, अवर सचिव (सामान्य प्रशा.) को भिजवाते हुए उस पर कार्रवाई करेगा।

3. यह दिनांक 9.5.2006 की पिछली समसंख्यक अधिसूचना के स्थान पर है।

ईलांगबम रॉबर्ट सिंह, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110 016, दिनांक 9 नवम्बर 2006

सं. एस.एम./01/008/2006--राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उप निदेशक के पद पर कार्यरत ले. कर्नल सी. चटर्जी (आईसी-39855वाई) को उसी विभाग में निदेशक/उप निदेशक (सलेक्शन ग्रेड) के पद पर 14,300-400-18,300 रुपये के वेतनमान में दिनांक 19.11.2001 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए. जे. कुरियन, निदेशक

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 1 नवम्बर 2006

सं. 17013/03/2005-भा.व.सेवा-II--वर्ष 2005 की चयन सूची के आधार पर पश्चिम बंगाल के तीन राज्य वन सेवा अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 1.6.2006 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करके निम्नलिखित सुधारों को नीचे दिए अनुसार अधिसूचित किया जाता है :--

क्र.सं. अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
1. श्री बुधराज शेवा	28.3.1962
जी. देवनानी, अवर सचिव	

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 3 नवम्बर 2006

सं. ए-12025/207/2004-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. ओम प्रकाश को 28.4.2006 (पूर्वाह्न)

से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं।

डा. ओम प्रकाश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2006

सं. ए-38013/3/2006-स्थापना-I--सेवानिवृत्ति की आयु हो जाने के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे श्री रोहिताश सिंह 31 अक्टूबर, 2006 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

सं. ए-38013/4/2006-स्थापना-I--सेवानिवृत्ति की आयु हो जाने के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे श्री ओम प्रकाश 31 अक्टूबर, 2006 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2006

सं. ए-19011/2/2006-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 के आदेश संख्या 9/32/2006-ईओ. (एसएम-I) के अनुसरण में श्री नरेश दयाल भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश : 1972) ने 31 अक्टूबर, 2006 के अपराह्न से सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एच. आर. जोशी, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2006

सं. 32011/6/2006-स्था.-II--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नियमित सहायक आयुक्त (फसल) डॉ. सहदेव सिंह को संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर 4 अक्टूबर, 2006 की पूर्वाह्न से नियमित प्रोन्नति आधार पर 12,000-375-16,500 रुपये के वेतनमान में उप आयुक्त (फसल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. 11-22/2006-पोलिसी (एनसीएफ)--राष्ट्रीय किसान आयोग में सदस्य श्री वाई.सी. नन्दा ने 31 अक्टूबर, 2006 को राष्ट्रीय किसान

आयोग के कार्यकाल की समाप्ति पर 31 अक्टूबर, 2006 की अपराह्न में अपना पद त्याग दिया।

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

सं. 11-22/2006-पॉलिसी (एनसीएफ)--राष्ट्रीय किसान आयोग में सदस्य डॉ. राम बदन सिंह ने 31 अक्टूबर, 2006 को राष्ट्रीय किसान आयोग के कार्यकाल की समाप्ति पर 31 अक्टूबर, 2006 की अपराह्न में अपना पद त्याग दिया।

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

सं. 11-22/2006-पॉलिसी (एनसीएफ)--राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन ने 31 अक्टूबर, 2006 को राष्ट्रीय किसान आयोग के कार्यकाल की समाप्ति पर 31 अक्टूबर, 2006 की अपराह्न में अपना पद त्याग दिया।

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

सं. ए.15012/6/2006-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री अरुण सक्सेना, सलाहकार (सांख्यिकी) 31 अक्टूबर, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. पी.एफ./एस./131-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री स्वर्ण सिंह छबड़ा, भारतीय वन सेवा (मणिपुर, त्रिपुरा : 1993) को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में उप सचिव के रूप में राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 से संबंधित कार्य को देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रभाग के लिए सृजित उप सचिव के पद के लिए 19 अक्टूबर, 2006 से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

उप सचिव के रूप में श्री स्वर्ण सिंह छबड़ा, की नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 18 अक्टूबर, 2010 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

बी. बी. मुखर्जी, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

सं. 3-7/2004-एन.आई. II--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम के संघम अनुच्छेद की धारा 50 तथा 51 के अनुसरण में श्री ए.सी. पाथी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को दिनांक 11 सितम्बर, 2006 पूर्वाह्न से तीन

वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो पहले हो श्री अमिताभ राजन, भा.प्र.से. जिन्होंने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम का पद छोड़ दिया के स्थान पर राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनूप कुमार, निदेशक

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. ए-12022/2/2005-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.8.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/17/2006-ई.ओ. (एस एम-1) के अनुसरण में, श्रीमती वीणा छोटाराय, भा.प्र.से. (बिहार : 72) को 31.8.2006 के अपराह्न से अगले आदेश तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 27 सितम्बर 2006

सं. ए-12022/1/2005-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 4/9/2006-ईओ (एमएम-1) दिनांक 21.4.2006 के अनुसरण में श्री डी.वी.एस. रंगा, के स.से. (76) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिनांक 27.9.2006 (पूर्वाह्न) से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 30.11.2006 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. ए-32013/3/2004-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.9.2006 के आदेश सं. 4/2/2006-सी.एस.1 (भाग) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव, श्री एम.एस. सिंहमार को 29.9.2006 के पूर्वाह्न से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कार्यमुक्त करते हैं और कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय में तदर्थ आधार पर चयन ग्रेड (उप सचिव) के रूप में नए कार्यभार हेतु रिपोर्ट करने का निदेश देते हैं।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32013/3/2004-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.9.2006 के आदेश सं. 4/2/2006-सी.एस.1 (भाग) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव, श्री महेन्द्र शर्मा को 29.9.2006 के पूर्वाह्न से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कार्यमुक्त करते हैं और वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास विभाग में तदर्थ आधार पर चयन ग्रेड (उप सचिव) के रूप में नए कार्यभार हेतु रिपोर्ट करने का निदेश देते हैं।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 5 अक्टूबर 2006

सं. ए-12022/1/2005-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/2/2006-सी.एस.1 (खंड) दिनांक 20.9.2006 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री एस.सी. गुप्ता, ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर दिनांक 28.9.2006 के पूर्वाह्न अथवा अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति इस अधिकारी को इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 23 अक्टूबर 2006

सं. ए-11011/1/2005-स्था.--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय में 18,400-500-22,400 रुपए के वेतनमान में भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद का सृजन होने पर मंत्रालय के वित्त आदेश सं. 11016/5/2006-आई.ई.एस., दिनांक 9.10.2006 के अनुसरण में मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाने पर श्री ए.एन. भट्टाचार्य, आई.ई.एस. को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिनांक 19.10.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इस पद को दिनांक 19.10.2006 से सृजित माना जाएगा।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 31 अक्टूबर 2006

सं. ए-19012/5/1989-स्था.--निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अवर सचिव श्री पी.ए. राघवन दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

(राष्ट्रीय विमुक्त, घूमन्तु एवं अर्ध-घूमन्तु जनजाति आयोग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. डी.एन.टी.सी./1/2006-प्रशासन (पार्ट)--भारत के राष्ट्रपति डा. स्वयं एस. पांडा की निदेशक (अनुसंधान), राष्ट्रीय विमुक्त, घूमन्तु एवं अर्ध-घूमन्तु जनजाति आयोग के पद पर तदर्थ नियुक्ति का विस्तार दिनांक 16 सितम्बर 2006 से 5 फरवरी, 2007 तक रु. 12,000-375-16,500/- के निर्धारित वेतनमान पर पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर व अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

लक्ष्मी चन्द, सदस्य सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. 11036/09/2006-पीसीएंडवी--इस मंत्रालय की दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना सं. 11036/20/2005-पीसीएंडवी के अधिक्रमण में और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्रीमती रुचिरा पंत को, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के प्रयोजन से, एतद्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

प्रदीप कुमार, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. क-22012/2/2006-स्था.--राष्ट्रपति जी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/2/2006-सी.एस.-1, दिनांक 31.10.2006 के अनुसरण में श्री वीरेन्द्र सिंह को उप सचिव के पद पर पदोन्नत करके सहर्ष नियुक्त करते हैं, और ओवरसीज इंडियन अफेयरज मंत्रालय से उप सचिव का एक पद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अपवर्तन द्वारा, उन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में 01.11.2006 (पूर्वाह्न) से नामावली पर लिया जाता है।

एस. सी. दास, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

सं. ए-32014/2/2006-प्रशा.1--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड "सी" आशुलिपिकों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अथवा नियमित निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड "ए" और "बी" (विलयित)] उपलब्ध होने अथवा अगले आदेश किए जाने तक, इनमें जो पहले पड़े, दूरसंचार विभाग के संवर्ग में 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड "ए और बी" (विलयित)] के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती वीणा वर्मा	1.04.2006 से 31.12.2006 तक
2.	श्री आर.के. शर्मा	1.04.2006 से 31.12.2006 तक

2. उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई हैं और इसके द्वारा अधिकारियों को निजी सचिव के ग्रेड [आशुलिपिक ग्रेड "ए और बी" (विलयित)] में आमेलित किए जाने अथवा वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा।

टी कुन्दवी, अवर सचिव (प्रशा. I)

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 1 नवम्बर 2006

सं. 5527/एनआईसी/2006-का.व.स्था. II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्रीमती एन. संगीता, (कर्मचारी कोड सं. 5527), का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "एस बी", के पद से त्यागपत्र दिनांक 2 नवम्बर, 2006 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना II)

दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. 5105/एनआईसी/2006 का.व.स्था. II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री आस्तिक कुमार पाणिग्रहि, (कर्मचारी कोड सं. 5105), का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-मल्कानगिरि जिला केन्द्र, उड़ीसा से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "एस बी", के पद से त्यागपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2005 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना II)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2006

सं. ई(जी.पी.)2002/1/49--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित 4 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 14.9.2006 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी सेवा (आई.आर. एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

2003-2004 के लिए अनुपूरक पैनल

क्र.सं. अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

मध्य रेलवे

1. एस. के. राव (पश्चिम मध्य रेलवे में कार्यरत)

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

1. जे.के. चौधरी

उत्तर रेलवे

1. एस.सी. हुडा

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. अनिरुध साहू (पूर्वतट रेलवे में कार्यरत)

एम. के. अग्रवाल, सचिव/रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी.पी.)2003/1/49--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित 41 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 14.9.2006 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी सेवा (आई.आर. एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

2004-2005 के लिए पैनल

क्र.सं. अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

मध्य रेलवे

1. आर.पी. पुरोहित

2. के.के. पाली (पश्चिम मध्य रेलवे में कार्यरत)

पूर्व रेलवे

1. पार्थ मुखोपाध्याय

2. जे. पाण्डे (पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत)

3. पी.के. मुखर्जी

4. एस. सेनगुप्ता

5. टी.के. कोले (चि.रे.का. में कार्यरत)

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

1. एस.आर. राव

2. ए.के. राव

3. पी.के. मैती

4. डी.के. मुखोपाध्याय

5. एस.सी. सक्सेना

6. एन.एस. सिंह

7. ए.के. दास

8. बी.के. पॉल

9. जी.सी. सरकार

10. एम.के. पाण्डे

11. यू.एन. सोनोवाल (अ.ज.जा.)

12. टी.टी. भूटिया (अ.ज.जा.)

उत्तर रेलवे

1. प्रेम कुमार मिगलानी

2. राजीव सक्सेना

3. अशोक कुमार

4. ओ.पी. तनेजा

5. हरबंस सिंह (अ.ज.जा.) (रे.डि.का. में कार्यरत)

दक्षिण मध्य रेलवे

1. एम. श्रीप्रकाश
2. अर्सदा दासु (अ.जा.)
3. पी. नोयल फ्रांसिस
4. वी. स्वामी नायडू
5. एस.के. अब्दुल कय्यूम
6. बी.आर. रामकृष्ण

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. एस.के. आचार्य (पूर्वतट रेलवे में कार्यरत)
2. जे.सी. नायक
3. चित्तरंजन दास (पूर्वतट रेलवे में कार्यरत)
4. मोहम्मद एस. हुसैन
5. आर.एन. जेना (पूर्वतट मध्य रेलवे में कार्यरत)
6. आर.के. स्वेन (पूर्वतट मध्य रेलवे में कार्यरत)

दक्षिण रेलवे

1. एम. विजय कुमार (अ.जा.)
2. आर. रविकुमार

पश्चिम रेलवे

1. आर.के. अग्रवाल
2. ए.के. तिवारी
3. आर.बी. वर्मा (अ.जा.)

एम. के. अग्रवाल, सचिव/रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

सं. ए-22012/1/2001-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/11/2006-सीएस.1 दिनांक 25.8.2006 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री पी. ससी कुमार को तदर्थ आधार पर पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में 10,000-325-15,200 रु. के वेतनमान में दिनांक 30.8.2006 (पूर्वाह्न) अथवा अगले आदेशों तक, अवर सचिव (सी.एस. एस. की श्रेणी I) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2006

सं. ए-38013/1/06-ई-II(बी)--केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी और सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में निजी

सचिव श्री पी.एस. बजाज अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 31.10.2006 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 2006

सं. 24/2006 फाइल सं. 20/31/2005-प्रशा.--सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम, 2005 (2005 की सं. 22) की धारा 5 (2) के अनुसरण में निम्नानुसार केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्रीय भूजल बोर्ड के स्थापना संबंधी मामलों तथा सतर्कता अनुभाग में निम्नलिखित अधिकारियों को जल संसाधन मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित किया जाता है :--

क्र.सं.	नाम व पदनाम	स्कंद का नाम
	(सर्वश्री)	
1.	श्री ए.के. सक्सेना, उप सचिव (भूजल स्थापना) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी	केन्द्रीय भूजल बोर्ड के स्थापना मामले एवं सतर्कता अनुभाग
2.	श्री एम.जे. जोन, उप सचिव (स्थापना)	केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना मामले
सतपाल, निदेशक (प्रशासन)		

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2006

सं. 801/1/2006-एफ (सी)--चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 9 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में पहले से कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव, श्री एम.पी. जॉन को दिनांक 12.10.2006 की पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, तिरुवनंतपुरम में प्रतिनियुक्ति आधार पर अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

संगीता सिंह, निदेशक (फिल्म)

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2006

सं. के-11011/22/2004-डीडी I ए--राष्ट्रपति, श्री यू.एन. बेहेरा, आईएएस (उड़ीसा : 83) को दिल्ली विकास प्राधिकरण में, उनके कार्यभार संभालने की तिथि से दिनांक 13.1.09 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त करते हैं।

परमजीत सिंह, डेस्क अधिकारी

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110001, the 2nd November 2006

No. A. 22017/1/2006-PMA—President is pleased to appoint Shri Amba Dutt, Personal Assistant of Ministry of Home Affairs (CSSS) and presently holding the post of Personal Assistant on the personal staff of Prime Minister as Private Secretary (Rs. 6,500-200-10,500/-) on the personal staff of Prime Minister with effect from the forenoon of 1 November 2006.

2. The appointment of Shri Amba Dutt on the personal staff of Prime Minister is coterminous with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

P. K. ROY, Under Secy.

The 3rd November 2006

No. A. 22017/1/2006-P.M.A.—Consequent upon his appointment on promotion to the grade of Under Secretary in the Department of Commerce, Shri R. S. Chatterjee, Section Officer of Ministry of Home Affairs (CSS) and appointed as Assistant Private Secretary to the Prime Minister, has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 3 November 2006.

P. K. ROY, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 3rd November 2006

No. F. 6 (1991)/2006-Adm. I.—In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training *vide* their Order No. 7/9/2006-EO (SM-I) dated 31st October, 2006, Shri Abhijit Sengupta, IAS (KN : 72) has assumed charge as Principal Adviser in the Planning Commission in the pay of Secretary to the Government of India w.e.f. the forenoon of 01.11.2006.

R. SRIDHARAN, Jt. Secy.

New Delhi, the 6th November 2006

No. F. 6 (1934)/2005-Adm. I.—In pursuance of the ACC's approval communicated by the Department of Personnel & Training *vide* their Order No. 9/32/2006-EO (SM. I) dated 27th October, 2006, and in continuation of notification of even number dated the 4th August, 2006, Dr. Chandra Pal, IAS (UP : 72) will continue as Principal Adviser, Planning Commission in the rank and pay of Secretary for a period of three months beyond 31st October, 2006 or until further orders, whichever is earlier.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. F. 6 (1992)/2006-Adm. I.—In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training *vide* their Order No. 7/10/2006-EO(SM-I) dated 1st November, 2006 Smt. Sudha Pillai, IAS (KL : 72)

has assumed charge as Principal Adviser in the Planning Commission in the rank and pay of Secretary to the Government of India w.e.f. the forenoon of 02.11.2006.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 7th November 2006

No. F. 6 (1691)/96-Adm. I.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 13016/3/2006-IES dated 13.10.2006, Smt. Sushmita Dasgupta, NFSG officer of IES and Director, Planning Commission is relieved from the Planning Commission w.e.f. 7.11.2006 (AN) to join Department of Economic Affairs.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 9th November 2006

No. F. 6 (1892)/2004-Adm. I.—Consequent on his promotion to SAG of ISS and posting as DDG in NSSO, FOD, Lucknow, Shri Rajeev Lochan, Director, Planning Commission is relieved from the Planning Commission with effect from 9th November, 2006 (AN) to join NSSO, FOD, Lucknow.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 10th November 2006

No. F. 6 (1994)/2006-Adm. I.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 13016/3/2006-IES dated 13.10.2006, Smt. Suman Kaushik, NFSG officer of IES has assumed charge as Director in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- w.e.f. 7.11.2006 (FN)

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 13th November 2006

No. F. 6 (1939)/2005-Adm. I.—Consequent on his promotion to SAG of ISS and posting as DDG, Training Division, CSO, New Delhi, Shri Vari Kant Bhatnagar, Director, Planning Commission is relieved from the Planning Commission with effect from 13th November, 2006 (AN) to join CSO, New Delhi

K. K. CHHABRA, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION
OF INDIA

New Delhi-110001, the 9th November 2006

No. 193/22/11/2006 (IDG)/01—On attaining the age of superannuation, Ms. Ila Datta Gupta, Under Secretary retired from service w.e.f. the afternoon of 31.10.2006.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 30th October 2006

No. A. 12026/4/2006-Admn. I (L.D.)—On recommendation of the Department of Personnel & Training vide their O.M. No. 29/3/2006-EO (MM-I) dated 25th October, 2006 and approved for inclusion in the CSS Directors' Suitability List for the year 1999, the President is pleased to appoint Shri M. Das, Deputy Secretary, a CSS Selection Grade Officer, presently working in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Director in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 30th October 2006 and until further orders following the upgradation of the post of Deputy Secretary held by him to the post of Director as a measure personal to him.

V. G. MANGAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 26th September 2006

No. K. 11019/1/2006-US. II (Pt.)—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice S.S. Nijjar, seniormost Judge of the Punjab & Haryana High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Harjit Singh Bedi relinquishes charge of the office of the Acting Chief Justice of the Punjab & Haryana High Court, consequent upon his appointment as Chief Justice of the Bombay High Court.

DR. P. K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 13026/1/2006-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Shailesh Kumar Sinha, (ii) Shri Jayanandan Singh, (iii) Shrimati Sheema Ali Khan, and (iv) Shri Samarendra Pratap Singh to be Judges of the Patna High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective office.

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is also pleased to appoint Shri Ajay Kumar Tripathi to be an Additional Judge of the Patna High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P. K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 13014/4/2006-U.S. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Harjit Singh Bedi, Judge of the Punjab & Haryana High Court, to be the Chief Justice of the Bombay High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P. K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 7th November 2006

No. 14016/28/2005-UTS-II.—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Additional Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with immediate effect :—

Sl. No.	Name of the Officer	Range No.	Date of Birth
	(S/Shri)		
1.	Gurman Singh Sethi	D-I/573	26.04.1948
2.	Naresh Chand Aneja	D-I/519	02.04.1949
3.	Jinder Singh	D-I/562	06.07.1947
4.	Mohan Chander	D-I/520	12.10.1949
5.	Ravinder Singh Grewal	D-I/521	20.10.1949

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

CORRIGENDUM

No. 14016/28/2005-UTS-II.—In Ministry of Home Affairs' Notification of even number dated 30th October 2006 regarding appointment of 12 Inspectors of Delhi Police to Entry Grade of DANIPS, the name of Shri Sushil Kumar (D-I/609) indicated at Sl. No. 2 of the table at para 1 was inadvertently included and the same may be treated as deleted.

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

New Delhi, the 8th November 2006

No.20/G/2817-Ad. I—The President is pleased to appoint Smt. P. V. Valsala, G. Kutty as Joint Secretary in the Department of Official Language with effect from the forenoon of 1st November 2006, until further orders.

I. B. SHARMA, Under Secy.

No. I-14011/10/2006-IPS. I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Andhra Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Andhra Pradesh Under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

Select List of 2006

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	C.S.R.K.L.N. Raju	01.04.1956
2.	M. Naganna	01.07.1956
3.	G. Sudheer Babu	15.04.1966
4.	T. Prabhakar Rao	25.06.1960
5.	C. Ravi Varma	01.11.1958
6.	P. Promod Kumar	13.05.1961

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/10/2006-IPS. I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 02.11.2006, approved the Select List of 2006, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 12.09.2006, containing the names of the following State Police Service Officers of Andhra Pradesh, towards filling up six substantive vacancies in the IPS Andhra Pradesh Cadre during 2006.

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	C.S.R.K.L.N. Raju (OBC)	01.04.1956
2.	M. Naganna (OBC)	01.07.1956
3.	G. Sudheer Babu (SC)	15.04.1966
4.	T. Prabhakar Rao	25.06.1960
5.	C. Ravi Varma (OBC)	01.11.1958
6.	P. Promod Kumar (OBC)	13.05.1961

O. S. ASHOK, Under Secy.

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 6th October 2006

No. A-19011/3/2006-ISC—The President is pleased to appoint Shri M. Ramalingam to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Services Cadre on ad-hoc basis in the Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 6th October, 2006.

P. B. RAJAPPAN, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 30th October 2006

No. A-32013/1/2006-Ad. I (G).—The President is pleased to appoint Ms. Simmi R. Nakra, IP&T A & FS (94), as Deputy Secretary in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 29th September, 2006 for a period of four years, or until further orders, whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A-32013/5/2006-Ad. I (G) Pt.—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar Misra, IAS (UP : 76), as Joint Secretary in the Department of Personnel & Training, with effect from the forenoon of 7th August, 2006, in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- for a period of five years, or until further orders, whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 22nd December 2005

No. 41/PA.II/2005.—On the basis of the results of the Civil Services (Main) Examination, 2004, held by the Union Public Service Commission, New Delhi, the President is pleased to appoint the following 20 (Twenty) candidates as Indian Foreign Service (IFS) Probationers in the Ministry of External Affairs, New Delhi, with effect from the date shown against each:—

Sl. No.	Name of the Candidate	Date of appointment
1	2	3
1.	Ms. Suja K	22.08.2005 (F/N)
2.	Ms. Rachita Bhandari	22.08.2005 (F/N)
3.	Amit S. Telang	22.08.2005 (F/N)
4.	Gaurav Ahluwalia	22.08.2005 (F/N)

1	2	3
5.	Sumit Seth	22.08.2005 (F/N)
6.	S. Satish Kumar	22.08.2005 (F/N)
7.	Ninad S. Deshpande	22.08.2005 (F/N)
8.	Ms. Gitika Srivastava	22.08.2005 (F/N)
9.	Ashish Kumar Sinha	22.08.2005 (F/N)
10.	Ms. Eenam	22.08.2005 (F/N)
11.	Abhishek Verma	24.08.2005 (F/N)
12.	Venkatachalam M.	22.08.2005 (F/N)
13.	Anand Prakash M.	22.08.2005 (F/N)
14.	Bramha Kumar	22.08.2005 (F/N)
15.	L Ramesh Babu	05.12.2005 (F/N)
16.	Ms. Deepti Ganji	22.08.2005 (F/N)
17.	P. S. Gangadhar	22.08.2005 (F/N)
18.	S. Gopalakrishnan	22.08.2005 (F/N)
19.	Ms. Muanpui Lal Hmingliana	22.08.2005(F/N)
20.	Ms. T. Ajungla Jamir	22.08.2005 (F/N)

2. On their appointment, the above mentioned twenty officers assumed charge as Indian Foreign Service Probationers (2005), with effect from the date shown against each officer.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 24th April 2006

No. 10/PA-II/2006.—Consequent upon change of name Ms. Gitika Srivastava, Indian Foreign Service (Probationer) 2005 Batch, shall hereafter be known as Ms. Geetika Srivastava.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

No. 11/PA-II/2006.—Consequent upon change of name Ms. Suja K, Indian Foreign Service (Probationer) 2005 Batch, shall hereafter be known as Ms. Suja K. Menon.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

New Delhi, the 9th March 2006

No. 5/PA-II/2006.—Consequent upon change of name Ms. Hmingliana Muanpui Lal, IFS (Probationer) 2005 Batch, shall hereafter be known as Ms. Muanpui Saiawi.

R. K. SHARMA, Admn. Officer (PA-II)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 7th November 2006

No. 3/2006.(F. No. 26/5/2006-AD.IC).—The President is pleased to appoint Sh. M. Veeraiyan, Commissioner of Central Excise as Member (Technical) in the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, with effect from 11.09.2006 (forenoon) and till further orders.

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

New Delhi, the 22nd May 2006

No. 24 of 2006 (F. No. A-38012/19/2006-AD.II).—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri Mithilesh Kumar, Joint Commissioner, Vapi with effect from 27.06.2006 (F. N.) under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules 1972.

HAWA SINGH, Under Secy.

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

The 22nd June 2006

No. 27 of 2006 (F. No. A-38012/22/2006-AD.II).—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement rendered by Shri Amitab Hajela, ADG, CEI, Delhi vice ADG, CEI, Chennai from Indian Revenue Service (C&CE), Group 'A' with effect from 22.06.2006 (AN) under Rule FR-56K (1-A) (a) of the Fundamental Rules.

HAWA SINGH, Under Secy.

The 1st September 2006

No. 38 of 2006 (F. No. A-39012/12/2006-AD.II).—The President is pleased to accept the resignation from Government service tendered by Shri Sanjay Agarwal posted as Assistant Commissioner, Directorate of Publicity and Public Relations, New Delhi with effect from 31.08.2006 (AN) under Rule 26 of CCS (Pension) Rules, 1972.

HAWA SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 2nd November 2006

No. A-12011/17/2006-Admn.II.—The President is pleased to appoint Smt. Jayanthi Srinivasan, Principal Private Secretary of the CSSS Cadre of Minister of Mines as Senior Principal Private Secretary in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Ministry of Finance, Department of

Economic Affairs purely on ad-hoc basis w.e.f. 23.10.2006 (AN) for the period upto 31.12.2006 or till the post is filled up on regular basis or until further orders.

2. The ad-hoc promotion of above officer shall not confer on her any claim for regular appointment or the right to continue indefinitely in the grade of Senior Principal Private Secretary of CSSS. The service rendered by her on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade or for eligibility for promotion to the next higher grade and she will be reverted as and when Select List persons become available.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

The 3rd November 2006

No. A-12011/16/2006-Admn.II.—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/2/2006-CS.I dated 20.09.2006 read with order of even number dated 31.10.2006, the President is pleased to appoint Shri B. S. Rawat, Grade I (Under Secretary) of CSS to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad hoc basis with effect from the forenoon of 1st November 2006 and until further orders.

2. Ad-hoc promotion of the Shri B. S. Rawat shall not confer any right to continue in the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

3. The aforesaid Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 3rd November 2006

No. A-19011/227/2002-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Vinod Rai, IAS (KL: 72) presently Special Secretary (Financial Sector), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Secretary (Financial Sector) w.e.f. the forenoon of 27th October, 2006, in the pay of Rs. 26000/- (Fixed).

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

New Delhi, the 18th October 2006

No. A-12026/3/2005-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Smt. Shobha George, Under Secretary, National Human Rights Commission, to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal Ernakulam, on

deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-, for a period of three years w.e.f. 31st August, 2006 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-12026/3/2005-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri Surinder Singh Kochar, Chief Manager, Punjab & Sind Bank, to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-I, Chandigarh, on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-, for a period of three years w.e.f. 7th August, 2006 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 3rd November 2006

No. PFG/2224/Ad.I.—The President is pleased to appoint Ms. Priya P. Nair, IES as Assistant Director in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, with effect from the forenoon of the 23rd October, 2006 on temporary loan basis until further orders.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 6th November 2006

No. A-32014/1/2006-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Sharma, Private Secretary of the Central Secretariat Stenographers' Service to the post of Steno. Grade A&B (merged) (designated as Private Secretary) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- or inter-cadre transfer with effect from the afternoon of 4th October, 2006.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 7th November 2006

No. PG(2165)/Ad.I.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri R. P. Yadav, Assistant Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- stands retired from Government service with effect from the afternoon at the 31st October, 2006.

2. His name will be struck off from the rolls of this Department with effect from the said date.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 9th November 2006

No. PFG(2226)/Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri D. D. Tiwari, Dy. Director (OL) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, with effect from the forenoon of the 1st November, 2006 until further orders.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

New Delhi, the 10th November 2006

No. A-11019/1/2006-EG.—The President has been pleased to appoint Shri Ratan Kumar Sarkar-II of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Pr. Director of Audit, Central, Kolkata in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 7.8.2006 (F.N.) until further orders.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

No. A-11019/1/2006-EG.—The President has been pleased to appoint Shri Ramesh Prasad Kanth of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Pr. Accountant General (Audit), Bihar, Patna in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 9.8.2006 (F.N.) until further orders.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

APPELLATE AUTHORITY FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION

New Delhi-110001, the 6th November 2006

No. 1/3/2002-Admn.—In continuation of this Authority's Notification of even numbers dated 22.11.2002, 12.1.2003, 24.11.2004 & 30.11.2005, the tenure of deputation period of Shri B. M. Vallabhan, a permanent Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Power as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in this Authority, is extended for a further period of one year i.e. from 22.11.2006 to 21.11.2007, or until further orders or abolition of AAIFR, whichever is earlier, on the same terms & conditions.

HANWANT KISHORE, Under Secy.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 19th October 2006

No. A-12023/12/2005-Admn.I/IV.—The President is pleased to appoint Shri Justice Om Prakash Dwivedi, retired Judge of Delhi High Court, as Chairman, Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Commission with effect from 26.09.2006 (afternoon) for the period till he attains the age of 65 years i.e. 01.04.2009 or until the winding up of

the MRTP commission on constitution and operationalisation of the Competition Commission of India (CCI) or until further orders, whichever event occurs the earliest.

N. K. VIG, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE) DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 31st October 2006

No. 6/2354/2005/HRD-I-5154.—On attaining the age of superannuation Shri Vijendra Kumar Gupta, Assistant Director in this office has retired from Government service with effect from 31.10.2006 (A/N).

MUKESH BHATNAGAR, Jt. Director
General of Foreign Trade

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 31st October 2006

No. 19/2006 (F. No. A-19011/7/96-Estt.).—Shri Chander Bhan, Director, Government of India, Ministry of Textiles, has retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st October, 2006.

J. P. DUTT, Under Secy.

New Delhi, the 30th October 2006

No. 20/2006 (A-12022/6/2000-Estt.).—The President is pleased to appoint Shri R. S. Kanade, a Senior Administrative Grade (SAG) level officer of the Indian Economic Service as Economic Adviser in the Ministry of Textiles in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of 26th October, 2006.

CHANDER BHAN, Director

New Delhi, the 01st November 2006

No. 21/2006 (A-22014/6/2006-Estt.).—The President is pleased to appoint Smt. Anita Puri of Central Secretariat Service, as Under Secretary (ad hoc) in the Ministry of Textiles w.e.f. 1st November, 2006 (FN).

J. P. DUTT, Under Secy.

No. 22/2006 (A-22014/6/2006-Estt.).—The President is pleased to appoint Shri R. S. Dudani of the Central Secretariat Service, as Under Secretary in the Ministry of Textiles w.e.f. 1st November, 2006 (FN).

J. P. DUTT, Under Secy.

J. P. DUTT, Under Secy.

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND
PETROCHEMICALS)**

New Delhi, the 2nd November 2006

No. A-19011/11/06-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Asha Rani Rungta, IP&TA&FS (94) as Deputy Secretary in the Department of Chemicals and Petrochemicals with effect from the forenoon of 1st November, 2006 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 9th November 2006

No. A-32014/1/2005-Admn.—In pursuance of DOP&T's OMs No. 07/03/2006-CS-I dated 31st July, 2006, dated 26th September, 2006 and dated 5th October, 2006, the President is pleased to appoint the following substantive Assistants of Select List 1991 of CSS cadre of the Ministry of Coal to the Section Officers' Grade of the CSS cadre of the Ministry of Coal, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10500/- with effect from the forenoon of 7th November, 2006 upto 31.12.2006 or till regular Section Officers become available, whichever is earlier :—

S. No.	Name	Date of Birth	SCSL No.
1.	Shri G. S. Yadav	03.04.1950	343
2.	Shri L. S. Janoti	01.06.1955	405
3.	Shri D. S. Rawat	22.07.1953	406

2. The above appointments are being made purely on ad-hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade of the CSS. The Government reserves the right to terminate the above ad-hoc appointments at any point of time without giving any reason therefor.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 16th November 2006

No. 1/7/2005-M.II.—The President is pleased to appoint Shri P. M. Tejale, Senior Deputy Director General (Scientific and Technical Support Services), Geological Survey of India as Director General, Geological Survey of India in the scale of Rs. 26,000/- (Fixed) with effect from the afternoon of 7th November, 2006 and until further orders, subject to the final results in the petitions in the matter that are pending before the CAT Kolkata, impinging upon the present promotion.

BHUPAL NANDA, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi, the 9th November 2006

No. A-42013/3/2005-Admn.—In terms of Section 5(1) and (2) of the Right to Information Act 2005, the Competent Authority of this Ministry hereby designate Under Secretary (General Administration), Ministry of Food Processing Industries as the Designated Officer to receive applications and fees under the RTI Act. The details regarding his Telephone/FAX the indicated below :—

Name of the Officer	Designation & Address	Telephone/ FAX
Sh. S. L. Barodia	Under Secretary (General Admn.) Ministry of Food Processing Industries, Pancheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi-110 049.	011-26496505/ 26493228

2. However, if an application is received by a Central Public Information Officer, duly notified, directly, he shall process the same giving a copy to Shri S. L. Barodia, Under Secretary (General Admn.) for purpose of record.

3. This supersedes the earlier Notification of even number, dated 9.5.2006.

ELANGBAM ROBERT SINGH, Under Secy.

**MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)**

New Delhi-110 016, the 9th November 2006

No. SM/01/008/2006.—The President is pleased to appoint Lt Col C. Chatterjee (IC-39855Y) holding the post of Deputy Director in Survey of India to the post of Director/Deputy Director (Sel. Gde.) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in that Department with effect from 19.11.2001, until further orders.

A. J. KURIAN, Director

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 1st November 2006

CORRIGENDUM

No. 17013/03/2005-IFS-II.—In partial modification of Notification of even No. dated 1.06.2006 regarding appointment of three State Forest Officers of West Bengal to the Indian Forest Service on the basis of Select List of the year 2005, the following corrections are notified under :—

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri Buddharaj Shewa	28.03.1962

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110001, the 03rd November 2006

No. A. 12025/207/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Om Prakash to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 28.4.2006 (F.N.) until further orders. Dr. Om Prakash is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 1st November 2006

No. A-38013/3/2006-Estt.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Rohitash Singh, working as Section Officer in the Ministry of Health & Family Welfare, has retired from Government service w.e.f. 31st October, 2006 (AN).

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

No. A-38013/4/2006-Estt.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Om Prakash, working as Section Officer in the Ministry of Health & Family Welfare, has retired from Government service w.e.f. 31st October, 2006 (AN).

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

New Delhi, the 1st November 2006

No. A-19011/2/2006-Estt.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 9/32/2006-EO(SM-I) dated 27th October, 2006, Shri Naresh Dayal, IAS (UP : 1972) has joined as Secretary, Department of Health & Family Welfare with effect from afternoon of 31st October, 2006.

H. R. JOSHI, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &
COOPERATION)

New Delhi, the 2nd November 2006

No. 32011/6/2006-E.II.—The President is pleased to appoint Dr. Sahadeva Singh, a regular Assistant Commissioner (Crops) in the Department of Agriculture & Cooperation as Deputy Commissioner (Crops) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular promotion basis, on the recommendations of UPSC with effect from the forenoon of 4th October, 2006

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 7th November 2006

No. 11-22/2006-Policy (NCF).—Consequent upon expiry of the tenure of the National Commission on Farmers on 31st October, 2006, Shri Y. C. Nanda demitted the Office of Member, National Commission on Farmers in the afternoon of 31st October, 2006.

P. K. JALALI, Jt. Secy.

No. 11-22/2006-Policy (NCF).—Consequent upon expiry of the tenure of the National Commission on Farmers on 31st October, 2006, Dr. Ram Badan Singh demitted the Office of the Member, National Commission on Farmers in the afternoon of 31st October, 2006.

P. K. JALALI, Jt. Secy.

No. 11-22/2006-Policy (NCF).—Consequent upon expiry of the tenure of the National Commission on Farmers on 31st October, 2006, Prof. M. S. Swaminathan demitted the Office of Chairman, National Commission on Farmers in the afternoon of 31st October, 2006.

P. K. JALALI, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,
DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 31st October 2006

No. 15012/6/2006-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Arun Saxena, Advisor (Stat.) in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 31st October, 2006.

P. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi-110 001, the 25th October 2006

No. PF/S/131-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Swaran Singh Chhabra, Indian Forest Service (Manipur-Tripura : 1993) as Deputy Secretary in the Ministry of Youth Affairs & Sports with effect from 19th October, 2006 against a post of Deputy Secretary created for International Sports Division to oversee the work relating to Commonwealth Games, 2010.

The appointment of Shri Swaran Singh Chhabra as Deputy Secretary would be for a period of 4 years i.e. upto 18th October, 2010 or until further orders, whichever event takes place earlier.

B. B. MUKHERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 31st October 2006

No. 3-7/2004-NI II.—In pursuance of Articles 50 and 51 of the Articles of Association of the National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC), the

President is pleased to appoint Shri A. C. Padhi, Chairman-cum-Managing Director, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) as an ex-officio Director on the Board of Directors of the National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) with effect from the forenoon of 11th September, 2006 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Amitabh Rajan, IAS who has demitted office of Chairman-cum-Managing Director, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC).

ANOOP KUMAR, Director

New Delhi-110001, the 01st September 2006

No. A-12022/2/2005-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel and Training's OM No. 4/17/2006-EO (SM-I) dated 30.08.2006, the President is pleased to appoint Smt. Veena Chhotray, IAS (BH : 72), as Secretary in the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. 31.08.2006 (A.N.), until further orders.

R. A. SINGH, Under Secy.

The 27th September 2006

No. A-12022/2/2005-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel and Training's OM No. 4/9/2006-EO (SM-I) dated 21.09.2006, the President is pleased to appoint Shri D. V. S. Ranga, CSS (76), as Joint Secretary in the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. 27.09.2006 (F.N.) till the date of his superannuation i.e. 30.11.2008 or until further orders, whichever is earlier.

R. A. SINGH, Under Secy.

The 29th September 2006

No. A-32013/3/2004-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 4/2/2006-CS.I (Pt) dated 20.09.2006, the President is pleased to relieve Shri M. S. Sinhmar, Under Secretary of Central Secretariat Service, of his duties in the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. forenoon of 29.09.2006 with direction to report to Ministry of Agriculture and Cooperation, for his new assignment as Selection Grade (Deputy Secretary) on ad-hoc basis.

R. A. SINGH, Under Secy.

No. A-32013/3/2004-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 4/2/2006-CS.I (Pt) dated 20.09.2006, the President is pleased to relieve Shri Mahendra Sharma, Under Secretary of Central Secretariat Service, of his duties in the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. forenoon of 29.09.2006 with direction

to report to Department of Scientific and Industrial Research, for his new assignment as Selection Grade (Deputy Secretary) on adhoc basis.

R. A. SINGH, Under Secy.

The 5th October 2006

No. A-12022/1/2005-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 4/2/2006-CS.I (Pt.) dated 20.09.2006, the President is pleased to appoint Shri S. C. Gupta, Grade I (Under Secretary) of Central Secretariat Service of the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on ad-hoc basis w.e.f. forenoon of 28.09.2006 until further orders.

2. This adhoc promotion shall not confer on the officer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade. The adhoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefor.

R. A. SINGH, Under Secy.

The 23rd October 2006

No. A-11011/1/2005-Estt.—On creation of one post of Senior Administrative Grade (SAG) of the Indian Economic Service in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- in this Ministry and on his posting as Adviser in this Ministry in pursuance of Ministry of Finance Order No. 11016/5/2006-IES dated 09.10.2006, the President is pleased to appoint Shri A. N. Bhattacharjee, IES as Adviser in the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. forenoon of 19.10.2006, until further orders.

2. The post would be deemed to have been created in this Ministry w.e.f. 19.10.2006.

R. A. SINGH, Under Secy.

The 31st October 2006

No. A-19012/5/1989-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri P. A. Raghavan, Under Secretary in the Ministry of Social Justice & Empowerment stands retired from Government service with effect from afternoon of 31st October, 2006.

R. A. SINGH, Under Secy.

(NATIONAL COMMISSION FOR DENOTIFIED,
NOMADIC & SEMI-NOMADIC TRIBES)

New Delhi-110003, the 8th November 2006

No. DNTC/1/2006-Admn.(Pt.).—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Dr. Swayam S. Panda

as Director (Research) in the National Commission for Denotified, Nomadic & Semi-Nomadic Tribes, New Delhi in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 16th September, 2006 to 5th February, 2007 on purely temporary and ad-hoc basis or until further orders, whichever is earlier.

LAKSHMI CHAND, Member Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 7th November 2006

No. 11036/09/2006-PC&V.—In supersession of this Ministry's Notification No. 11036/20/2005-PC&V dated 10th October, 2005, and in terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, Smt. Ruchira Pant, Joint Secretary in the Ministry of Tribal Affairs is hereby designated as Appellate Authority, for the Ministry of Tribal Affairs for the purpose of the implementation of the Right to Information Act, 2005.

PRADEEP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 07th November 2006

No. A-22012/2/2006-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/2/2006-CS-I, dated 31.10.2006, the President is pleased to appoint Shri Virendra Singh, who has been promoted to the post of Deputy Secretary and posted to the Ministry of Minority Affairs by diverting one post of Deputy Secretary from Ministry of Overseas Indian Affairs to Ministry of Minority Affairs, is hereby taken on rolls of Deputy Secretary in the Ministry of Minority Affairs with effect from 01.11.06 (FN).

S. C. DAS, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110 001, the 16th October 2006

No. A-32014/2/2006-Admn.-I.—The President is pleased to permit the following Stenographers Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Telecommunications to continue to officiate as Private Secretary {(Stenographer Grade 'A&B' (Merged))} on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the cadre of Department of Telecommunications for a period indicated against each or till the availability of regular Private Secretary {Stenographer Grade 'A&B' (Merged)} or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officer	Period
1.	Smt. Veena Verma	1.4.2006 to 31.12.2006
2.	Shri R. K. Sharma	1.4.2006 to 31.12.2006

2. The above appointments are purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the officers for absorption in the grade or to claim seniority in the Private Secretary Grade {(Stenographer Grade 'A&B' (Merged))}.

T. KUNDHAVI, Under Secy. (Admn. I)

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY) NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110 003, the 01st November 2006

No. 5527/NIC/2006-P&E-II.—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Smt. N. Sangeeta, (Emp. Code No. 5527), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre-Headquarters, New Delhi, with effect from the afternoon of 2nd November, 2006 and she is relieved of her duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (P&E-II)

The 7th November 2006

No. 5105/NIC/2006-P&E-II.—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Astik Kumar Panigrahy, (Emp. Code No. 5105), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre-Malkangiri District Cente, Orissa, with effect from the afternoon of 8th April, 2005 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (P&E-II)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th November 2006

No. E(GP)2002/1/49.—The President is pleased to approve of the undermentioned 4 Group 'B' officers of Civil Engineering Department of Indian Railways, being appointed substantively to the Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers with effect from 14th September, 2006 on the Railways noted against each.

Supplementary Panel For 2003-2004

S. No. Name of Officer

S/Shri

Central Railway

1. S. K. Roy (working in WCR)

Northeast Frontier Railway

1. J. K. Chowdhury

Northern Railway

1. S. C. Hooda

South Eastern Railway

1. Anirudha Sahu {working in ECoR}

M. K. AGARWAL, Secy., Railway Board

The 9th November 2006

No. E(GP)2003/1/49.—The President is pleased to approve of the undermentioned 41 Group 'B' officers of Civil Engineering Department of Indian Railways, being appointed substantively to the Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers with effect from 14th September, 2006 on the Railways noted against each.

Panel for 2004-2005

Central Railway

1. R. P. Purohit
2. K. K. Pali (working in WCR)

Eastern Railway

1. Partha Mukhapadhyay (working in ECR)
2. J. Pandey
3. P. K. Mukherjee
4. S. Sengupta
5. T. K. Kolay (working in CLW)

Northeast Frontier Railway

1. S. R. Roy
2. A. K. Roy
3. P. K. Maity
4. D. K. Mukhopadhyay
5. S. C. Saxena
6. N. S. Singh
7. A. K. Das
8. B. K. Paul
9. G. C. Sarkar
10. M. K. Pandey
11. U. N. Sonowal (ST)
12. T. T. Bhutia (ST)

Northern Railway

1. Prem Kr. Miglani
2. Rajeev Saxena
3. Ashok Kumar
4. O. P. Taneja
5. Harbans Singh (SC) (working in RCF)

South Central Railway

1. M. Sriprakash
2. Arasada Dasu (SC)
3. P. Noel Francis
4. V. Swamy Naidu
5. S. Abdul Qayyum
6. B. R. Ramakrishna

South Eastern Railway

1. S. K. Acharya (working in ECoR)
2. J. C. Nayak
3. Chittaranjan Das (working in ECoR)
4. Mohd. S. Hossain
5. R. N. Jena (working in ECoR)
6. R. K. Swain (working in ECoR)

Southern Railway

1. M. Vijay Kumar (SC)
2. R. Ravikumar

Western Railway

1. R. K. Agarwal
2. A. K. Tiwari
3. R. B. Verma (SC)

M. K. AGARWAL, Secy., Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi-110 001, the 31st October 2006

No. A-22012/1/2001-Estt.—In pursuance of DOPT's Order No. 5/11/2006-CS-I(Desk) dated 25.08.2006, the President is pleased to appoint Shri P. Sasi Kumar, Section Officer of Central Secretariat Service, as Under Secretary (Grade I of CSS), on ad-hoc basis, in the Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 30.08.2006 (F/N) until further orders.

S. K. SHAHI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 03rd November 2006

No. A. 38013/1/06-E.II(B).—Shri P. S. Bajaj, an officer of Central Secretariat Stenographers Service and working as Private Secretary in the Deptt. of Road Transport & Highways has retired from Government Service on superannuation w.e.f. 31.10.2006 (AN).

Dr. R. K. AGRAWAL, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 6th November 2006

No. 24/2006, F. No. 20/31/2005-Admn.—In pursuance of Section-5(2) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the following officers are designated as Central

Public Information Officers in respect of Establishment matters of CWC & CGWB and Vigilance Section in the Main Secretariat of the Ministry of Water Resources.

Sr. No.	Name & Designation	Name of the Wing
1.	Shri A. K. Saxena, DS (GW Estt.) & CVO	Establishment matters of CGWB & Vigilance Section
2.	Shri M. J. John, DS (E)	Establishment matters of CWC
SATPAL, Director (Admn.)		

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 20th October 2006

No. 801/1/2006-F(C).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with Rule 9 of

the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government is pleased to appoint Shri M. P. John, Under Secretary of CSS previously working in the Department of Personnel & Training, as Additional Regional Officer, Central Board of Film Certification, Thiruvananthapuram on deputation basis for a period of three years with effect from the forenoon of 12.10.2006 or until further orders, whichever event takes place earlier.

SANGEETA SINGH, Director (Films)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi-110 011, the 10th November 2006

No. K-11011/22/2004-DDIA.—The President is pleased to appoint Shri U. N. Behera, IAS (OR : 83), as Chief Vigilance Officer in the Delhi Development Authority, from the date of his taking over charge of the post till 13.01.2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

PARAMJIT SINGH, Desk Officer

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006.